

**संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा**  
**(Download) UPSC IAS Mains Exam 2017**  
**(PUBLIC ADMINISTRATION ) लोक प्रशासन (Paper-2)**

---

Exam Name: UPSC IAS Mains PUBLIC ADMINISTRATION (लोक प्रशासन) (Paper-1)

Marks: 250

Time Allowed: 3 Hours

**खण्ड A**

---

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

- (a) "सांविधानिकता भारत में प्रशासनिक इमारत का मूलाधार है। " विवेचना कीजिए।
- (b) "मंत्रिमण्डल सचिवालय की प्रतिष्ठा और कार्यकरण का प्रधानमंत्री के कार्यालय (पी. एम. ओ. ) से कड़ी चुनौती का सामना होता है। " इस दृढ़कथन के पक्ष और विपक्ष दोनों पर तर्क दीजिए।
- (c) "निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता - निर्माण की कमी के कारण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रभाविता बाधित होती है। " विस्तार से समझाइए।
- (d) "भारत में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (पी. एस. यू.) को निजी उद्यमों और बहु - राष्ट्रीय निगमों (एम. एन. सी.) से कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। " समझाइए।
- (e) क्या आपके विचार में 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए. आइ. जे. एस. )' नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध करने में योगदान करेगी ? अपने कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।

प्रश्न 2.

- (a) "बाज़ार सुधारों ने भारत के संविधान के आधारीक स्वरूप का अतिक्रमण नहीं किया है। " टिप्पणी कीजिए।
- (b) "सिविल सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश का विचार भारतीय प्रशासन में ऊर्जा का संचार करेगा। " इसके क्या -क्या संभव लाभ और परिसीमाएँ हैं ?
- (c) "अग्रलक्षी शासन और ठीक समय पर कार्यान्वयन (प्रगति ) संघ सरकार की एक नवाचारी परियोजना है। " इसके अभिलक्षणों और कार्य - रीतियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 3.

- (a) "दबंग मुख्यमंत्री की उपस्थिति में , राज्य में मंत्रिपरिद की स्थिति घटकर सचिवों के एक निकाय की हो जाती हैं। " उदाहरणों सहित समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
- (b) "लोक सेवाओं का भारतीयकरण एक धीमी किन्तु अविरत प्रक्रम हैं। " समझाइए।
- (c) "भू -अभिलेखों का डिजिटलीकरण , जिला प्रशासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक , परंतु अपर्याप्त पूर्व -शर्त हैं। " स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 4.

- (a) "अधिकारीतंत्र को पर्यावरणीय सधारणीयता की आवश्यकता और विकास अनिवार्यताओं के बीच एक संतुलन बनाना होता है। " विवेचना कीजिए।
- (b) "मुख्य सचिव को प्रायः मुख्यमंत्री का वैकल्पिक व्यक्तित्व (आल्टर ईगो ) कहा जाता है। " राज्य प्रशासन में उनके सम्बन्धों की गत्यात्मकता पर , उदाहरणों के साथ , चर्चा कीजिए।

(c) "भारत में ज़िला नियोजन समिति ( डी. पी. सी. ) स्थानीय स्वशासन की क्रियाविधि की कजोरतम संरचना रही है। " उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए।

## खण्ड B

प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

- (a) " ग्राम सभा की संस्था का प्रत्यक्ष लोकतंत्र की गाँधीवादी भावना के साथ बहुत कम सम्बन्ध है। " समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- (b) " भारत में प्रभावी अभिशासन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारीतंत्र में तकनीकी विशेषज्ञों को अधिक सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। " क्या आप सहमत है ? विस्तार से समझाइए।
- (c) " लोक सेवको को अपनी शिकायतों की मीडिया में चर्चा करने से बचना चाहिए। " इस संदर्भ में, भारत में लोक सेवको को उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र की विवेचना कीजिए।
- (d) क्या आपके - विचार में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, नागरिक चार्टरों का एक विस्तार है ? कारण बताइए।
- (e) " लेखा महानियंत्रक (सी. जी. ए. ) के पद से भारत में लोक वित्त प्रबंधन को सशक्त बनाने की अपेक्षा की जाती है। " इसके अधिदेश की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 6.

- (a) " लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार सुशासन पहलों को प्रोत्साहित करते है "। इस सन्दर्भ में, लोक सेवको के द्वारा कुछ ऐसी पहलों की विवेचना कीजिए।
- (b) " वस्तु एवं सेवा कर ( जी. एस. टी.) के क्रियान्वयन ने केन्द्र- राज्य सम्बन्धों में वित्तीयतः एवं राजनीतिकतः दोनों में प्रतिमान परिवर्तन किया है। " उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए।
- (c) " सुचना के अधिकार ( आर. टी. आई. ) ने अपनी यात्रा तो शुरू की है, किन्तु यह अपनी मंजिल से बहुत दूर है। " टिप्पणी कीजिए।

प्रश्न 7.

- (a) " आपदा तैयारी औरप्रबन्धन भारत में जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। " उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।
- (b) वर्तमान आंतरिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, क्या 'कानून और व्यवस्था' को भारत के सविधान की समवर्ती सूचि का एक हिस्सा बना दिया जाना चाहिए ? अपनी राय को तर्कसहित प्रस्तुत कीजिए।
- (c) " यदि भारतीय पुलिस की संरचना और अभिविन्यासों में आमूलतः रूपान्तरण ला दिए जाएं, तो उसकी छवि में सुधार लाया जा सकता है। " क्या आप सहमत है ? विस्तार से समझाइए।

प्रश्न 8.

- (a) राज्य और बाजारी बलों के बिच मध्यस्थम् अभिकर्ताओं के रूप में विनियामक आयोगों के समक्ष उभरती चुनौतियों की उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।
- (b) " भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए संस्थागत यांत्रिकत्वों और विधिक प्रावधानों के सम्बन्ध में कार्य न करने की नीति भारतीय प्रशासन का एक अभिलक्षण है। " समलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(c) " द्वितीयं प्रशासनिक सुधार आयोग ( ए. आर. सी. ) समनुषगिता के सिद्धांत के लिए एक दृढ पक्ष रखता है।"  
विस्तार समझाइए ।